

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान
INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY
 (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)
 (An autonomous Institute under the Ministry of Earth Sciences, Govt. of India)
 पाषाण, पुणे - 411 008
PASHAN, PUNE - 411008

वैश्विक निविदा सूचना शुद्धिपत्र / CORRIGENDUM TO GLOBAL TENDER NOTICE

निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट समसंख्यक निविदा सूचना द्वारा प्रकाशित विवरण हेतु निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को बढ़ाया जा रहा है।

The last date of submission of bids for purchase of "items / description" published vide even number of Tender Notice is extended as tabulated below

क्रम सं. Sr. No.	निविदा सूचना सं. Tender Notice No.	विवरण/Description	ऑनलाइन बोलियाँ प्रस्तुत करने की बढ़ाई गयी समय सीमा / Extended timeline for submission of bids online	
			के पास से From	तक To
01.	पीएस/125/06/2019 PS/125/06/2019	जीसी-एमएस / एमएस का उपयोग करते हुए एच ₂ एस (गैस), व्हीओसी, एसव्हीओसी, पीएएच, पीसीबी, डायऑक्सिन व फुरन्स सहित हवाई कार्बनिक टॉक्सिक घटकों के विश्लेषण के लिए एक पूर्ण समाधान की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और रखरखाव- मात्रा 01 सेट. Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of A Complete solution for analysis of airborne organic toxic components including H ₂ S (gas), VOCs, SVOCs, PAH, PCB, DIOXINS & FURANS using GC-MS/MS - Qty. 01 Set	11 th दिसंबर 2019 11 th December, 2019	30 th जनवरी 2020 1500 तक 30 th January, 2020 1500 hrs.
उपरोक्त निविदा के लिए तकनीकी बोलियाँ 30 जनवरी, 2020 को 1530 बजे खोली जाएंगी। Technical Bids (only) for aforesaid tender will be opened on 30 th January, 2020 at 1530 hrs.				

दिनांक 22 नवंबर, 2019 को हुई निविदा-पूर्व बैठक का अंतिम कार्यवृत्त भी नीचे विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। अन्य निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी। विस्तृत विवरण एवं बोलियों के प्रस्तुतीकरण हेतु कृपया वेबसाइट <https://moes.euniwizarde.com> देखें। संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए, निविदा विवरण भी इस संस्थान की वेबसाइट <http://www.tropmet.res.in> एवं सरकार के सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (सीपीपी) <http://www.eprocure.gov.in> पर भी उपलब्ध है। संस्थान किसी भी स्तर पर बिना किसी कारण बताए निविदा को पूरा या आंशिक रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Also final minutes of Pre-Bid meeting held on 22nd November, 2019 are available on websites as stated below. All other terms & condition shall remain unchanged. For details and submission of bids please visit website <https://moes.euniwizarde.com>. For the information of the prospective bidders, the tender details are also available on this Institute's Website: <http://www.tropmet.res.in> and Government's Central Procurement Portal (CPP) <http://www.eprocure.gov.in>. The Institute reserves the right to cancel the tender at any stage either in full or part as the case may be without assigning any reason thereof.

ह/Scd-
प्रशासनिक अधिकारी, कृते निदेशक
Administrative Officer, for Director
ईमेल/Email :psu.iitm@tropmet.res.in

INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY
DR. HOMI BHABHA ROAD, PASHAN, PUNE

PS/125/06/2019

22 November 2020

Sub: Minutes of the Pre-bid meeting for Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of “A complete solution for analysis of airborne organic toxic components including H₂S (gas), VOCs, SVOCs, PAH, PCB, DIOXINS & FURANS using GC-MS/MS – Qty 01 Set”.

A Pre-bid meeting relating to the Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of “A complete solution for analysis of airborne organic toxic components including H₂S (gas), VOCs, SVOCs, PAH, PCB, DIOXINS & FURANS using GC-MS/MS – Qty 01 Set” was held on 22nd November, 2019 at 1130 hrs at IITM, Pune.

In response to this Institute’s Tender Notice No.PS/125/06/2019, representatives of the following prospective bidders / firms / companies / OEM attended the meeting along with their queries:

- A. M/s. Thermo Fisher Scientific India Pvt Ltd., Pune
- B. M/s. Toshvin Analytical Pvt Ltd., Pune
- C. M/s. Agilent Technologies India Pvt Ltd., Pune

At the outset, Institute Officials welcomed all the representatives of the prospective bidders / firms / companies. Indenting Officer briefed the tender document, scope of supply and technical parameters of the equipment to be procured. While explaining the conditions indenting officer insisted that the acceptance will be weighed against the specified sample analysis report to be provided to all the vendors and also that the system software be supplied with look up methods developed, needless to say the system quoted should have demonstrable capabilities to achieve all target analytes mentioned in the tender including Dioxin/Furans.

The queries raised by all the representatives of the prospective bidders and their responses have been discussed, the major change requests, clarifications agreed/recommended by the Indenting Officer are stated below:

A. Queries raised by M/s Agilent Technologies India Pvt Ltd., Pune

Query:- EL scan sensitivity should be 0.5 fg instead of 4 fg to ensure dioxins & furans analysis as per your expectation.

Reply:- It is already mentioned in the tender document than a higher EI sensitivity is preferred to analyze all intended analytes. Hence suitable system may be quoted.

B. Queries raised by M/s Thermo Fisher Scientific India Pvt Ltd., Pune

Query 1):- EL Scan sensitivity – 4 fg or less (as per tender documents) we request you to modify it to 0.5 fg (as Dioxins and furons will be analysed)

Reply:- It is already mentioned in the tender document than a higher EI sensitivity is preferred to analyze all intended analytes. Hence suitable system may be quoted.

Query 2):- EL MRM sensitivity – 1 micro litre of 100fg of octafluoronaphtalene (OFN) should produce > 15000 :1 S/N (as per tender documents) we request you to modify it to 30000:1 (as the scan sensitivity will be 0.5fg).

Reply:- No change, as per tender document published.

All other terms and condition of the tender document remain unchanged. The meeting ended with vote of thanks to the members.